



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 375]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 16, 1976/श्रावण 25, 1898

No. 75]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 16, 1976/SRAVANA 25, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE & BANKING

(Banking Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 13th August 1976

S.O. 554(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act 1976 (21 of 1976), the Central Government being requested so to do by Syndicate Bank, establishes, with effect from the 16th August, 1976, a Regional Rural Bank in the State of Karnataka under the name of Malaprabha Gramina Bank, which shall operate within the local limits of the districts of Dharwar and Belgaum in the State of Karnataka.

[No. F. 4-87/76-AC(I)]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(बैंकिंगपक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1976

का० प्रा० 554 (अ).—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा (3) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सिडिकोट

(1693)

बैंक के अनुरोध पर 16 अगस्त, 1976 से 'मालप्रभा ग्रामीण बैंक' नामक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है। यह बैंक कर्नाटक राज्य धारवार और बेलगांव जिलों की स्थानीय सीमाओं में अपना कारोबार करेगा।

[सं० एक० 4-87/76-ए०सी० (1)]

S.O. 555(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Syndicate Bank, by which Malaprabha Grameena Bank has been sponsored, specifies Dharwar as the place where Malaprabha Grameena Bank shall have its head office.

[No. F. 4-87/76-AC(II)]

का० आ० 555 (अ).—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की उप-धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा मालप्रभा ग्रामीण बैंक के प्रायोजक सिंडीकेट बैंक के परामर्श से धारवार की उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर मालप्रभा ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[सं० एक० 4-87/76-ए०सी० (2)]

S.O. 556(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said sub-clause Malaprabha Grameena Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 4-87/76-AC(III)]

M. G. BALASUBRAMANIAN, Addl. Secy.

का० आ० 556 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मालप्रभा ग्रामीण बैंक को उपखण्ड प्रयोजन के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं० एक० 4-87/76-ए०सी० (3)]

एम० जी० बालमुब्रह्मण्यम, अपर सचिव।

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Banking Operations and Development)

New Delhi, the 13th August 1976

S.O. 557(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:—

Malaprabha Grameena Bank, Dharwar.

[DBOD. No. 123/INCL./C.102-76]

K. S. KRISHNASWAMY,
Deputy Governor.

भारतीय रिजर्व बैंक

(बैंकिंग परिचालन तथा विकास विभाग)

अधिसूचना

बम्बई, 16 अगस्त, 1976

का० आ० 557 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा यह निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाए, अर्थात्:—

मालप्रभा ग्रामीण बैंक, धारवार ।

[डी० बी०ओ०डी० सं० 123/आई०एन०सी०एल०/सी० 102/76]

के० एस० कृष्णस्वामी,

उप-गवर्नर ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976

